



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 31, 1981/माघ 11, 1902

No. 49]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 31, 1981/MAGHA 11, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय

अर्थिक कार्य विभाग

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1981

क्र. आ. 76 (अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक के अनुरोध पर 31 जनवरी, 1981 से मध्य प्रदेश राज्य में रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि मध्य प्रदेश राज्य के रायगढ़ जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा

[संख्या एफ. 1-21/79-आर. आर. बी. (1)]

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 30th January, 1981

S.O. 76(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, being requested so to do by State Bank of India establishes, with effect from the 31st January, 1981 a Regional Rural Bank in the State of Madhya Pradesh under the name of Raigarh Kshetriya

Gramin Bank which shall operate within the local limits of the district of the district of Raigarh in the State of Madhya Pradesh.

[No. F. 1-21/79-RRB (I)]

क्र. आ. 77 (अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजक भारतीय स्टेट बैंक से परामर्श करके, रायगढ़ को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहां पर रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ. 1-21/79-आर. आर. बी. (2)]

S.O. 77(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and State Bank of India, by which Raigarh Kshetriya Gramin Bank has been sponsored, specifies Raigarh as the place where Raigarh Kshetriya Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 1-21/79-RRB (II)]

क्र. आ. 78 (अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के उपखण्ड (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपखण्ड के प्रायोजकों के लिए, रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायगढ़ की प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976

(1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एफ. 1-21/79-आर. आर. बी. (3)]

बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव

**S.O. 78(E).**—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Raigarh Kshetriya Gramin Bank, Raigarh being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-21/79-RRB (III)]

BALDEV SINGH, Jt. Secy.

**भारतीय रिजर्व बैंक**

**ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष**

**अधिसूचना**

बम्बई, 31 जनवरी, 1981

**क्र. आ. 79 (अ)**—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क)

के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये, अर्थात् :—

“रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायगढ़ (म. प्र.)”

[आर. पी. सी. सी. संख्या 205/आई एन सी एल/311-81]

एम. वी. हाटे, निदेशक

**RESERVE BANK OF INDIA**

**Rural Planning and Credit Cell**

**NOTIFICATION**

Bombay, the 31st January, 1981

**S.O. 79(E).**—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India, Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :—

“Raigarh Kshetriya Gramin Bank, Raigarh (M.P.)”.

[RPCC. No. 205/INCL/311-81]

M. V. HATE, Director